



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 429 राँची, बुधवार

27 ज्येष्ठ, 1937 (श०)

17 जून, 2015 (ई०)

jkt; fuokpu vk; kx] >kj [k.M

आदेश

12 जून, 2015

संख्या: 03नि०-103/2011 रा०नि०आ० 1487 -- यतः राज्य निर्वाचन आयोग को समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिला से त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2010 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68 क, सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्यधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने / विधि द्वारा अपेक्षित रीति से लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और यतः उक्त अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों ने समयक सूचना दिये जाने पर भी उक्त असफलता के लिया कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिये गए अभ्यावेदनों पर, (यदि कोई हो,) विचार करने के पश्चात राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः इस संबंध में उपायुक्त, सरायकेला खरसावाँ के प्रतिवेदन / अनुपूरक प्रतिवेदन एवं प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अब राज्य निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 कि धारा 10क सहपठित, झारखंड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68 'क' के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को त्रिस्तरीय पंचायत निकायों / स्थानीय नगर निकायों के किसी भी पद या स्थान के लिए चुने जाने और निर्वाचित होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित किया जाता है।

Øekd	ftyk	fuokpu {ls-	ule ,oairk	dkj.k
1	2	3	4	5
1	I jk; dsk & [kj] kok	XXIII I jk; dsk & [kj] kok dpk&7	feuh eqMkj] i [k.M&dpk] ftyk&I jk; dsk & [kj] kok	fuokpu 0; ; ka dh ysk nkf[ky djusea vl Qy jga
2		XXIII I jk; dsk & [kj] kok [kj] kok&8	i nfeuh dekjh jkmr] xte&[kj] kok/kyk] ryl kb] i @ \$ i k \$ i [k.M&[kj] kok ftyk&I jk; dsk & [kj] kok fi u&833216	fuokpu 0; ; ka dh ysk nkf[ky djusea vl Qy jga
3		XXIII I jk; dsk & [kj] kok [kj] kok&8	; 'knk eq[kh] xte&t kj Mhgk] cfy; kVkm]- i @&t kj Mhgk] i k&cMkckEck] i [k.M&[kj] kok ftyk&I jk; dsk & [kj] kok fi u&833102	fuokpu 0; ; ka dh ysk nkf[ky djusea vl Qy jga
4		XXIII I jk; dsk & [kj] kok jktuxj n0&12	t kck VV] xte&vkeyVkyk] i @ \$ i k & xkSolni g] i [k.M&jktuxj] ftyk&I jk; dsk & [kj] kok fi u&831002	fuokpu 0; ; ka dh ysk nkf[ky djusea vl Qy jga
5		XXIII I jk; dsk & [kj] kok jktuxj m0&12	t; iky ep] xte&jkyk] i @&cht kMhg]	fuokpu 0; ; ka dh ysk nkf[ky djusea vl Qy

			i k&jkyk] i [k.M&jktuxj] f tyk&l jk; d syk& [kj l kok fi u&831002	jgA
6		XXIII I jk; d syk& [kj l kok jktuxj m0&12	fn d jke ep] xte&dV k&k] i @ \$ i k&/k sykMhg] i [k.M&jktuxj] f tyk&l jk; d syk& [kj l kok fi u&831002	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf [ky djusea vl Qy jgA
7		XXIII I jk; d syk& [kj l kok jktuxj m0&12	i dk; ep] xte&p k jk] i @ &/k ghi nk] i k&jkyk] i [k.M&jktuxj] f tyk&l jk; d syk& [kj l kok fi u&831002	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf [ky djusea vl Qy jgA
8		XXIII I jk; d syk& [kj l kok jktuxj m0&12	e s jk; ekMh] xte&>y d] i @ & t k s u h] i k&>y d] i [k.M&jktuxj] f tyk&l jk; d syk& [kj l kok fi u&831002	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf [ky djusea vl Qy jgA
9		XXIII I jk; d syk& [kj l kok jktuxj m0&12	j kuh ekMh] xte&i k V k d k p k] i @ & c k U n h] i k&jktuxj] i [k.M&jktuxj] f tyk&l jk; d syk& [kj l kok fi u&831002	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf [ky djusea vl Qy jgA
10		XXIII I jk; d syk& [kj l kok jktuxj m0&12	j ke n y k j V M] xte&>y d] i @ & t k s u h] i k&>y d] i [k.M&jktuxj] f tyk&l jk; d syk& [kj l kok fi u&831002	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf [ky djusea vl Qy jgA
11		XXIII I jk; d syk& [kj l kok jktuxj m0&12	j ke k V M] xte&N S M+ ki g k M h] i @ & d M e k j i k \$ i [k.M&jktuxj f t y k &l jk; d syk& [kj l kok fi u&831002	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf [ky djusea vl Qy jgA
12		XXIII I jk; d syk& [kj l kok jktuxj m0&12	g f j m j k] xte&m j k c l r h] i @ \$ i k \$ i [k.M&jktuxj] f tyk&l jk; d syk& [kj l kok fi u&831002	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf [ky djusea vl Qy jgA
13		XXIII I jk; d syk& [kj l kok pkf.My i @ & 5	enu i d kn] xte&d j e x k M h] i @ & h k n M h g] i [k.M&pkf.My	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf [ky djusea vl Qy jgA

14	XXIII I jk; dsk&[kjl kolk pkf.My i0&5	I Hkk" k plnz egrk\$ xte&Hkknq/hg] i 0&pkf.My) i z[k.M&pkf.My	fuokpu 0; ; ka dh y\$kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
15	XXIII I jk; dsk&[kjl kolk pkf.My i0&5	mn; d".k egrk\$ xte&vkl ucuh] i 0&dKUnjcMk] i z[k.M&pkf.My	fuokpu 0; ; ka dh y\$kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
16	XXIII I jk; dsk&[kjl kolk pkf.My i0&5	?ku' ; ke dHkdkj] xte&dikyh] i 0&pkf.My) i z[k.M&pkf.My	fuokpu 0; ; ka dh y\$kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
17	XXIII I jk; dsk&[kjl kolk pkf.My i0&5	fuekbz plnz egrk\$ xte&l gjcMk] i 0&: fn; k] i z[k.M&pkf.My	fuokpu 0; ; ka dh y\$kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
18	XXIII I jk; dsk&[kjl kolk pkf.My i0&5	I dyky igkfM+ k] xte&vkl ucuh] i 0&dKUnjcMk] i 0&pkf.My) i z[k.M& pkf.My	fuokpu 0; ; ka dh y\$kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
19	XXIII I jk; dsk&[kjl kolk pkf.My i0&6	I [kyky g[ca] xte&dkxykVkm] i 0&pkf.My) i z[k.M&pkf.My	fuokpu 0; ; ka dh y\$kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
20	XXIII I jk; dsk&[kjl kolk bpx< n0&2	xksollnz eka>h] xte&xksk dkp] i 0&bpx< } i z[k.M&bpx<	fuokpu 0; ; ka dh y\$kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
21	XXIII I jk; dsk&[kjl kolk bpx< n0&2	jke l kbz mjko] xte&cnkyx] i 0&yokVkm] i z[k.M&bpx<	fuokpu 0; ; ka dh y\$kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
22	XXIII I jk; dsk&[kjl kolk bpx< n0&2	ja hr eka>h] xte&fl ynk] i 0&xksk dkp] i z[k.M&bpx<	fuokpu 0; ; ka dh y\$kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
23	XXIII I jk; dsk&[kjl kolk uheMhg&4	: duh noh] xte&vknjMhg] i z[k.M&uheMhg	fuokpu 0; ; ka dh y\$kk nkf[ky djusea vl Qy jgA

24	XXIII I jk; dsk&[kjI kolk dplM&3	b7oj plnz egrk& xte&i kj xkek] i0&eq] i zk.M&dplM&	fuokpu 0; ; ka dh yskk nkf[ky djusea vl Qy jgA
25	XXIII I jk; dsk&[kjI kolk dplM&3	ckl no xki] xte&vknjMhg] i0&bpx<} i0&fr: yMhg] i zk.M&dplM&	fuokpu 0; ; ka dh yskk nkf[ky djusea vl Qy jgA
26	XXIII I jk; dsk&[kjI kolk dplM&3	egkohj xki] xte&rplhuMhg] i0&l h: e] i zk.M&dplM&	fuokpu 0; ; ka dh yskk nkf[ky djusea vl Qy jgA
27	XXIII I jk; dsk&[kjI kolk dplM&3	ek0 vcnryk] xte&pklMk] i0&fr: yMhg] i zk.M&dplM&	fuokpu 0; ; ka dh yskk nkf[ky djusea vl Qy jgA

jkT; fuokpu vk; 0r ds vkn&k I }

(g0@&) अस्पष्ट

I fpo

jkT; fuokpu vk; lxx]

>kj [k.M] jkph A

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 429--50 ।